



अंतरपीढ़ीगत सभा योजना



समय	गतविधि	विवरण
टैरिटरी पर नदिभर करता है	गतविधि	हॉल या चैपल में प्रवेश करने से पहले हर किसी को एक पोस्ट-इट नोट मलित है। उनसे यह लिखने के लिए कहा जाता है कि क्या सुनना पसंद करेंगे। यह किसी और या परमेश्वर की ओर से शब्द या वाक्य हो सकता है। उदाहरण: 'आप यह कर सकते हैं!' या 'आप अकेले नहीं हैं।' वे पोस्ट-इट नोट अपने पास रखेंगे।
	परचिय (वीडियो)	अन्तरराष्ट्रीय बाल एवं युवा दलित के बारे में स्पष्टीकरण।
	स्तुति और आराधना (थीम गीत)	सभी पीढ़ियों से मलिकर बनी एक आराधना टीम स्तुति और आराधना का नेतृत्व करती है। सुझाव: थीम गीत को पहले और/या अंतिम गीत के रूप में उपयोग करें।
	प्रार्थना	हम आपको बाइबल पाठ रैप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो आप वेबसाइट पर पा सकते हैं।
	रचनात्मक धर्मशास्त्र अध्ययन	बच्चों और युवाओं को सभा में साझा करने के लिए अपनी प्रतभा और कौशल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। विभिन्न प्रकार के योगदानों के बारे में सोचें: एक ब्रास बैंड, आराधना नृत्य, चित्र, वीडियो, गाने, आदि।
	वशिष योगदान	बच्चों और युवाओं को सभा में साझा करने के लिए अपनी प्रतभा और कौशल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। विभिन्न प्रकार के योगदानों के बारे में सोचें: एक ब्रास बैंड, आराधना नृत्य, चित्र, वीडियो, गाने, आदि।
	साझा करना	अपनी कहानियाँ साझा करने और एक-दूसरे को सुनने के माध्यम से, हम अपनी संगत बढ़ाएँगे और सीखेंगे कि परमेश्वर दूसरों में और उनके माध्यम से कैसे कार्य करता है। सुझाव 1. लोगों को खड़े होने और चार अन्य व्यक्तियों को खोजने के लिए कहें। फिर उनसे कहें कि उन्होंने अपने पोस्ट-इट नोट पर जो लिखा है उसे इस समूह में साझा करें। उन्हें एक दूसरे की बात सुनने दें। बातचीत के अंत में, उन्हें अपनी सीटों पर लौटने के लिए कहें। फिर उनसे पूछें कि उन्होंने इस बातचीत से क्या सीखा है और कुछ लोगों को जवाब देने दें। सुझाव 2. तीन से पांच लोगों को आगे आने और अपने पोस्ट-इट नोट पर जो लिखा है उसे साझा करने के लिए कहें। साझा करने के इस समय के अंत में, सभी से पूछें कि उन्होंने कहानियाँ सुनकर क्या सीखा है और कुछ लोगों को जवाब देने दें।

Time	Activity	Description
प्रतिक्रिया समय: प्रार्थना कार्ड पर प्रार्थनाएं	संदेश	<p>हम सभी विश्वासियों के याजकीय होने में विश्वास करते हैं। आज, हम इस बात का आनन्द मनाते हैं कि हम सभी परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं और इसलिए उम्र की परवाह किए बिना मूल्यवान लोग हैं। इसलिए हम युवाओं को यथासंभव संदेश देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।</p> <p>वकिल्प 1. एक बच्चा या युवा व्यक्ति संदेश पेश करता है, जिसकी मदद (तैयारी में) किसी युवा अगुवा या अफसर द्वारा की जाती है।</p> <p>वकिल्प 2. एक युवा अगुवा बच्चों और युवाओं की मदद से संदेश पेश करता है।</p> <p>वकिल्प 3. कोर का अफसर-इन-चारज बच्चों और युवाओं की मदद से संदेश पेश करता है।</p>
	थीम गीत	पुष्टिकरण के रूप में थीम गीत गाएं।
	प्रतिक्रिया समय: प्रार्थना कार्ड पर प्रार्थनाएं	<p>सभी को प्रार्थना कार्ड पर प्रार्थना लिखने के लिए आमंत्रित करें। वे किसी बच्चे या युवा व्यक्ति के लिए प्रार्थना लिख सकते हैं और उसे यह कार्ड भेज सकते हैं। वे स्वयं अपने लिए भी प्रार्थना लिख सकते हैं और कार्ड रख सकते हैं।</p> <p>वकिल्प 1. सुनिश्चित करें कि सभी से पहले प्रत्येक व्यक्ति की सीट के नीचे कार्ड और एक पेन हो।</p> <p>वकिल्प 2. लोगों को आगे आने और प्रार्थना कार्ड पर प्रार्थना लिखने के लिए आमंत्रित करें। सुनिश्चित करें कि कुछ प्रार्थना कार्ड और पेन दिया आसन या पवित्र मेज पर रखे गए हैं।</p>
	आशीष-वचन	ऐसे आशीष-वचन का चुनाव करें जो बच्चों और युवाओं पर केंद्रित हो।